



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 माघ 1932 (श0)  
(सं0 पटना 41) पटना, शुक्रवार, 11 फरवरी 2011

सं० 2/सी0- 109/2009-सा0प्र0-1029  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प  
27 जनवरी 2011

श्री अशोक कुमार तिवारी, (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1459/04 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी (अररिया) को इंदिरा आवास योजना हेतु आवंटित राशि 1,72,20,000 रु0 राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं जमाकर डेहटी पैक्स में जमा कर इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका के विपरीत कार्य करने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने, इंदिरा आवास मद की राशि के दुरुपयोग, गबन तथा कदाचार का मार्ग प्रशस्त करने तथा इंदिरा आवास के लाभार्थियों के चयन में भारी अनियमितता बरतने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 353, दिनांक 29 जनवरी 2009 द्वारा निलंबित कर विभागीय संकल्प संख्या 9056, दिनांक 9 सितम्बर 2009 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी।

2. श्री तिवारी, द्वारा निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही के विरुद्ध दायर सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 संख्या 12959/2010 में दिनांक 19 अगस्त 2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त सरकार के आदेशानुसार आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि श्री तिवारी के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निष्पादन तक इन्हें किसी वित्तीय जिम्मेवारी के पद पर पदस्थापित नहीं किया जायेगा।

4. श्री तिवारी की निलंबन अवधि के विनियमन एवम् वेतन के संबंध में इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही एवम् फौजदारी मुकदमों के फलाफल के आलोक में निर्णय लिया जायेगा।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री अशोक कुमार तिवारी (बि0प्र0से0), कोटि

क्रमांक 1459/04 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी (अररिया) संप्रति  
मुख्यालय, आयुक्त कार्यालय, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सिद्धनाथ राम,  
सरकार के अवर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 41-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>